

Date: February 15, 2025

To,

The General Manager, Listing Department, Bombay Stock Exchange Limited , P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Scrip Code: 531449	The Manager, Listing & Compliance Department The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051 Symbol: GRMOVER
--	---

Subject: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 of Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and nine months ended December 31, 2024

Dear Sir/ Madam,

In Compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we are enclosing the copies of newspaper advertisement of the Unaudited Financial Results of the company for the quarter and nine months ended December 31, 2024 published in the following newspapers on February 15, 2025.

- Financial Express (English)
- Jansatta (Hindi)

The above information is also available on the website of company at www.grmrice.com .

Kindly take the same on your records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For GRM Overseas Limited

Sachin Narang
Company Secretary and Compliance Officer
M. No. 65535



Registered Office
128, First Floor,
Shiva Market Pitampura,
Delhi 110034, India. • +91-11-4733 0330

Corporate Office
8 K.M. Stone, Gohana-Rohtak Road
Village Naultha, Panipat 132145
Haryana, India • +91-972964 7000/8000

Factory
• Gohana Road (Panipat), Haryana
• Naultha (Panipat), Haryana
• Gandhidham, Gujarat

KAMA HOLDINGS LIMITED

CIN : L92199DL2000PLC104779

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, 2nd Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091

Corporate Office: Block C, Sector 45, Gurgaon-122003, Tel. No : (+91-11) 49482870 • Fax : (+91-11) 49482900

Email : info@kamaholdings.com; website : www.kamaholdings.com

**UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2024** (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		QUARTER ENDED		NINE MONTHS ENDED		QUARTER ENDED		NINE MONTHS ENDED	
		31-Dec-24	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Dec-23
		Unaudited				Unaudited			
1	Total Income from Operations	0.10	849.42	5370.54	6237.32	352554.45	307583.45	1047814.35	964460.92
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax	(31.36)	709.61	5192.34	6056.65	37291.33	35356.76	101079.17	126494.83
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(23.38)	530.89	5156.20	5852.94	27222.90	25464.38	72735.69	91603.99
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(23.15)	530.87	5155.67	5852.39	13163.32	35729.00	83852.10	106068.99
5	Paid up Equity Share Capital	3209.06	3209.06	3209.06	3209.06	3209.06	3209.06	3209.06	3209.06
6	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)								
	(a) Basic :	(0.07)	1.65	16.07	18.24	42.78	40.25	114.22	144.50
	(b) Diluted :	(0.07)	1.65	16.07	18.24	42.78	40.25	114.22	144.50

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and the Company's website (www.kamaholdings.com).

For and on behalf of the Board

Kartik Bharat Ram

Chairman

(DIN: 0008557)

Place : Gurugram, Haryana

Date : 14th February, 2025

**Cholamandalam Investment and Finance Company Limited**

Corporate Office: " CHOLA CREST " C 54 & 55, Super B - 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600032, India. Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005 Contact No: Mr. Srinivas V, Mob.No. 9643344410

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower / Co-Borrower/ Mortgagor (s) that the below described immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Cholamandalam Investment and Finance Company Limited the same shall be referred herein after as Cholamandalam investment and Finance Company Limited. The Secured Assets will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis through E-Auction.

It is hereby informed to General public that we are going to conduct public E-Auction through website <https://chola-lap.procure247.com/>

S.N.	Account No. and Name of borrower, co-borrower, Mortgagors	Date & Amount as per Demand Notice U/s 13(2)	Descriptions of the property /Properties	Reserve Price, Earnest Money Deposit & Bid Increment Amount (In Rs.)	E-Auction Date and Time, EMD Submission Last Date Inspection Date
1.	Loan Account Nos. X0HEDEF00002953320, X0HEDEF00003139298, HE02DEF00000003483 1.SACHIN KUMAR (APPLICANT) 2.SATENDER PAL @ SAATENDER PAL (CO-APPLICANT) 3. GAYTRI S @ GAYTRI (CO-APPLICANT) 4.SEEMA S @ SEEMA (CO-APPLICANT) 5. M/S SACHIN PANEER BHANDAAR (THROUGH ITS PROPRIETOR - SACHIN KUMAR) (CO-APPLICANT) All Above At: A-1/3, Gali No.1, Uttam Nagar, Rajapuri, Delhi-110059.	13.07.2023 Rs. 37,16,673/- Type of Possession SYMBOLIC	PROPERTY BEARING NO. A-1/9 HAVING AREA ADMEASURING 50 SQ.YDS I.E., 41.81 SQ. MTRS WITH ITS ALL ROOF/TERRACE RIGHTS OF LAND UNDERNEATH OUT OF TOTAL PROPERTY ADMEASURING 100 SQ.YDS COMPRISED IN KHASRA NO. 104/1 IN BLOCK A-1 SITUATED IN REVENUE ESTATE OF VILLAGE PALAM, DELHI AREA ABADI KNOWN AS COLONY RAJAPURI IN BLOCK A-1, UTTAM NAGAR, NEW DELHI WHICH IS BOUNDED AS UNDER: - EAST- PLOT NO. 8, WEST- PORTION OF PLOT NO. 9, NORTH- ROAD, SOUTH-PLOT NO. 9(PORITION).	Rs. 49,50,000/- Rs. 4,95,000/- Rs. 20,000/-	07.03.2025 at 11.00 a.m to 1:00 p.m 06.03.2025 , 10.00 am to 5.00p.m As per appointment

1. ion-notice. For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact (Muhammed Rahees - 81240 00030), Ms.Procure247, (Contact Person: Vasu Patel: 9510974587)

2. For further details on terms and conditions please visit <https://chola-lap.procure247.com/> & <https://www.cholamandalam.com/auction-notice> to take part in e-auction.

THIS IS ALSO A STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES,2002

Place: DELHI, NCR Date : 13-02-2025

Sd/- Authorised Officer Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

GRM OVERSEAS LIMITED

CIN:L74899DL1995PLC064007

Regd. Off:128, FIRST FLOOR, SHIVA MARKET PITAMPURA North Delhi-110034

Email Id: cs@grmrice.com, Website: www.grmrice.com, Ph-011-47330330, Fax No: 011-0180-2653673

Extract of Consolidated and Standalone Financial Results for Quarter and nine months ended 31st December, 2024 [In terms of Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(Amount in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended Dec. 31, 2024 (Unaudited)	Quarter Ended Dec. 31, 2023 (Unaudited)	Period Ended Dec. 31, 2024 (Unaudited)	Year Ended Mar 31, 2024 (Audited)	Quarter Ended Dec. 31, 2024 (Unaudited)	Quarter Ended Dec. 31, 2023 (Unaudited)	Period Ended Dec. 31, 2024 (Unaudited)	Year Ended Mar 31, 2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	24,450.99	35,746.60	67,032.99	1,18,582.93	37,124.42	38,248.42	1,05,680.62	1,31,244.18
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,612.05	1,796.62	4,726.04	6,735.72	1,878.22	2,082.78	5,578.76	8,045.77
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,612.05	1,796.62	4,726.04	6,735.72	1,878.22	2,082.78	5,578.76	8,045.77
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,194.71	1,326.29	3,514.60	5,138.82	1,354.16	1,549.25	4,075.92	6,071.90
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,187.93	1,328.93	3,514.60	5,150.46	1,417.36	1,507.40	4,061.98	5,707.96
6	Total Comprehensive Income Attributable to Non Controlling Interest	-	-	-	-	24.99	9.61	61.50	93.78
7	Total Comprehensive Income Attributable to Controlling Interest	-	-	-	-	1,392.37	1,497.79	4,000.48	5,614.17
8	Paid Up Equity Share Capital (Face Value per share Rs. 2/-)	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
9	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Earnings Per Share (of ₹2/- each) (for continuing and discontinued operations) -								
	1. Basic:	1.99	2.21	5.86	8.56	2.26	2.57	6.79	10.12
	2. Diluted:	1.92	2.21	5.64	8.56	2.17	2.57	6.55	10.12

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the stock exchanges under the Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full formats of quarterly / annual Financial results are available on the stock exchange website i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.grmrice.com.

For GRM OVERSEAS LIMITED

Sd/-

Mamta Garg

Whole Time Director

DIN: 05110727

Date : February 13, 2025

For All Advertisement Booking**Call : 0120-6651214****BIHAR SPONGE IRON LIMITED**

CIN: L27106JH1982PLC001633

Registered Office: Umesh Nagar, Chandil, District - Saraikela Kharsawan, Jharkhand-832401.

PH. +91 9955542302 E-Mail : companysecretary@bsil.org.in, Website : www.bsil.org.in

EXTRACT OF THE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 3RD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024 (Rs. in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ending			Nine Months Ended		Year ended 31.03.2024 (Audited)
		31.12.2024 (Un-audited)	30.09.2024 (Un-audited)	31.12.2023 (Un-audited)	31.12.2024 (Un-audited)	31.12.2023 (Un-audited)	
1	Total Income from Operations	5,913	7,147	7,680	24,245	21,155	29,217
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	189	146	113	704	295	744
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	189	146	113	704	295	744
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	189	146	113	704	295	744
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	189	146	113	704	295	744
6	Equity Share Capital	9,021	9,021	9,021	9,021	9,021	9,021
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	-18,709
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)	0.21	0.16	0.13	0.78	0.33	0.83
a	Basic (in Rs.)	0.21	0.16	0.13	0.78	0.33	0.83
b	Diluted (in Rs.)	0.21	0.16	0.13	0.78	0.33	0.83

NOTES:

The above Unaudited financial results for the quarter ended 31st December, 2024 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective meetings held on 14th February, 2025.

The above is an extract of the detailed format of financial results for the 3rd Quarter and nine months ended 31st December, 2024, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the 3rd Quarter and nine months ended 31st December, 2024 is available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website at www.bsil.org.in.

The above results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment Rules), 2016.



For Bihar Sponge Iron Limited

Sd/

Umesh Kumar Modi

Chairman & President

DIN : 00002757

Place : New Delhi

Date : 14th February 2025

SUPRANEET FINANCE AND CONSULTANTS LIMITED

Regd. Office: C-55/2, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110 052

Ph: 011-42952500, Fax: 011-42952555

E-Mail: info@sfcindia.com, Website: www.sfcindia.com

CIN: L65921DL1989PLC035261

EXTRACT FROM STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2024 (₹ in Lacs)

PARTICULARS	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Preceding 3 months ended 30.09.2024 (Unaudited)	Corresponding 3 months ended in the Previous Year 31.12.2023 (Unaudited)	Year to date figures for current Period ended 31.12.2024 (Unaudited)	Year to date figures for previous Period ended 31.12.2023 (Unaudited)	Previous Year ended 31.03.2024 (Audited)
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	0.11	0.06	0.22	-0.85	0.42	0.71
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	0.11	0.06	0.22	-0.85	0.42	0.71
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	0.11	0.06	0.22	-0.85	0.42	0.71
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	0.11	0.06	0.22	-0.85	0.42	0.71
Equity Share Capital	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67
Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the balance sheet of previous year)	-	-	-	-	-	82.18
Earnings per share (before extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted :	0.00	0.00	0.01	-0.03	0.01	0.02
Earnings per share (after extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted :	0.00	0.00	0.01	-0.03	0.01	0.02

Notes:

- The above results were reviewed and recommended by the audit committee and then approved by the board of directors at their meeting held on February 13, 2025.
- The above financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013, regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015 and other recognized accounting practices and the policies to the extent applicable.
- The Company has not received any complaint from investors during the quarter ended on 31.12.2024.
- The Business activity of the Company falls within a single primary business segment and there are no reportable segments.
- Figures for the corresponding period have been regrouped/ recasted/rearranged wherever necessary to make them comparable.
- The unaudited results of the Company for the quarter ended December 31, 2024 are available on the Company's website (www.sfcindia.com) and on the website of MSEI (www.msei.in).



For and on behalf of the Board

Sd/-

Vinod Gupta

Whole Time Director

DIN: 00381782

Place : Delhi

Date : 13.02.2025

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD. SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

Regd. Office: Plot-15, 6th Floor, Sec-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana-122002

Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act") read with Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter referred to as "the Rules"). Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s), Co-Borrower(s) and Guarantor(s) or their legal heir(s) or representative(s) that the below described immovable property(s) mortgaged/charged to India Shelter Finance Corporation Limited (hereinafter referred to as the Secured Creditor), the possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Secured Creditor having its Registered Office at-6th Floor, Plot No 15, Institutional Area, Sector 44 Gurugram Haryana - 122002, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on the dates mentioned below for realization of the amount due to the Secured Creditor from the borrowers, co-borrowers and guarantors. The sale will be done by the Authorized Officer at the place mentioned below.

Loan Account Number/ AP Number And Name of Borrower(s) /Co-Borrower(s) /Guarantor(s)	Demand Notice u/s 13(2) Date and Amount	Date and Type of Possession	Reserve Price	Date and Time of Inspection of the property
HLJACHLONS000005043594 AP-10095022 MR./MRS. MAYA GUPTA & MR./MRS. KARAN GUPTA	Demand Notice : 12.11.2024 Rs. 2191480/- (Rupees Twenty One Lakh Ninety One Thousand Four Hundred Eighty Two Only) Bid Increase Amount 10000/-	Symbolic Possession 21.01.2025 Total Outstanding as on Date Rs.2273243/- Rupees Twenty Two Lakh Seventy Three Thousand Two Hundred Forty Three Only) as on 11th Feb 2025	Rs.4676500/-Rupees Forty Six Lakh Seventy Six Thousand Five Hundred Only	14.03.2025 (Inspection Time 10:00 AM to 05:00 PM) EMD Deposition Last Date 15.03.2025

Description Of The Immovable Property/ Secured Asset : All Piece And Parcel Of Plot No A 149 A, MONIKA VIHAR 2ND,MAGYAVAS, SAGANER, JAIPUR RAJASTHAN BOUNDARY:- East-Plotno -A154, West-Road -30FL North-Plotno -A149, South-Plotno -A148

Place of EMD Deposition / Place of Auction: First Floor, R.S. Tower, Kalwar Road, Near Paisa Buddy Finance, Govindpura, Jaipur, Rajasthan -302012

Mode Of Payment :- All payment shall be made by demand draft/RTGS/NEFT in favour of India Shelter Finance Corporation Limited.

Loan Account Number/ AP Number And Name of Borrower(s) /Co-Borrower(s) /Guarantor(s)	Demand Notice u/s 13(2) Date and Amount	Date and Type of Possession	Reserve Price	Date and Time of Inspection of the property
LA11CLONS000005063815 AP-10150663 MR./MRS. Poonam Kanwar, MR.Devendra Singh	Demand Notice : 11.10.2024 And Rs. 604821/- (Rupees Six Lakh Four Thousand Eight Hundred Twenty One Only) Bid Increase Amount 10000/-	Symbolic Possession 09.01.2025 Total Outstanding as on Date Rs.659314 Rupees Six Lakh Fifty Nine Thousand Three Hundred Fourteen Only) as on 12th Feb 2025	Rs.523600/-Rupees Five Lakh Twenty Three Thousand Six Hundred Only	14.03.2025 (Inspection Time 10:00 AM to 05:00 PM) EMD Deposition Last Date 15.03.2025

Description Of The Immovable Property/ Secured Asset : All Piece And Parcel Of Patta No -18 Kh. No 185V11 Balvanki Gram Panchayat Thengri Ka Baas,panchayat Samiti Rangarh The Ramgarhwar BOUNDARY:- East-Aam Rasta, West- House Of Narendra Singh, North-House Of Narendra Singh, South-House Of Jaswant Singh,

Place of EMD Deposition / Place of Auction: Aahana Tower, First Floor

मूथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : टीवी नं. 14/2074-7, मुद्रुट रोड, पुणे जिला, महाराष्ट्र-411 004
 मुंबई कार्यालय : 12/ए 01, 13वीं मंज, फार्मिडी रोड, मुद्रुट रोड, टीवी नं. सी 38 एवं सी 39, मांडवी रोड, मुंबई-400051, ईमेल: authorised.officer@mathoot.com

वित्तीय परिश्रमियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत

जबकि, अधोस्थापना वित्तीय परिश्रमियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मुद्रुट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("एमपीडीएल") के प्राधिकृत अधिकारी हैं, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाएं निर्गत की हैं, जिनमें निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं), सह-ऋणकर्ता(ओं), गारंटर(एँ) को संबंधित सूचनाओं के निर्गत होने तथा आपकी सूचना प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक सेवा प्रदान करने के रूप में एवं उसके माध्यम से किंग वॉलिनियुआर सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की समयवधि में अद्यतन व्याज, लागत एवं शुल्कों सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके कंपनी के प्रति शेष अपने भुगतान-दायित्व का पूर्णतः निर्वहन करने को कहा गया था। ऋण के निर्यात प्रतिभूतगान के लिए प्रतिभूतिके रूप में निर्मासिहित प्रतिभूत परिश्रमियों को उक्त ऋणकर्ता(ओं), सह-ऋणकर्ता(ओं), गारंटर(एँ) द्वारा क्रमशः एम्पएफसीएल के पास बंककृत खाता गया है :

क्र. सं.	ऋणकर्ता/ओं के नाम तथा ठेका	एमपीडीएल की तिथि	मांग सूचना की तिथि	कुल बकाया राशि (₹) लघु भागी व्याज
1.	ऋण खाता संख्या MHFLPROCTG000005003574 1. रोशन लाल, 2. दुर्गा देवी, 3. किशन लाल नायक	29-नवंबर-2024	03-जनवरी-2025	₹ 5,35,406.30 /- (सपेरे पाँच लाख चौरासी हजार चार सौ छह और तीस पैसे मात्र) 07-दिसंबर-2024 के अनुसार

प्रतिभूत परिश्रमियों / अचल संपत्तियों के विवरण : पट्टा संख्या 4743, बही संख्या- 95 पर स्थित आवासीय मूड्ड के समस्त भाग तथा अंश जो मांग करविषया, घाम पंचायत- सांयली, पंचायत समिति- रथिम, तहसील- रथिम, जलपट्ट- चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2560 वर्ग फीट है तथा जो निम्नानुसार परिशीलित है पूर्व :- सड़क, पश्चिम :- रथय का बाड़ा, उत्तर :- भगवान लाल / धीसा नायक, दक्षिण :- सड़क।

मांग सूचना के अंतर्गत एम्पएफसीएल को भुगतान करने में विफल होने हैं, जो एम्पएफसीएल उक्त ऋणकर्ताओं के संपूर्ण जोड़के, लागत एवं परिश्रमों पर उपरोक्त संपत्तियों प्राधिकृत अधिकारी को अधिकारी होने और विधि-व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के पास चलसब एसी अन्य कार्यावधि करे।

उक्त ऋणकर्ता(ओं), सह-ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(एँ) को संसोधित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के अंतर्गत एम्पएफसीएल की पूर्व सन्मति के बिना सूचना में संशोधित उक्त सूचना प्रेषित करने के लिए, पट्टा के माध्यम से उक्त अचल संपत्तियों को अधिकृत अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

स्थान : राजस्थान, दिनांक : 15 फरवरी 2025
 हस्ता./ प्राधिकृत अधिकारी - मुद्रुट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

सुप्रानित फाइनेंस एंड कन्सल्टेंट्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : सी-55/2, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110 052
 दूरभाष : 011.42952500/ फैक्स : 011.42952555
 ई-मेल : info@sfclindia.com, वेबसाइट : www.sfclindia.com
 सीआईएन : L65921DL1989PLC035261

31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही हेतु पृथक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (₹. लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2024 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त पूर्ववर्ती 3 माह 30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	पूर्ववर्ती वर्ष में समाप्त तदनुकूली 3 माह 31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त वरतमान अवधि हेतु वर्षावधतन औसत 31.12.2024 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त पूर्ववर्ती अवधि हेतु वर्षावधतन औसत 31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
परिचालन से कुल आय (निवल)	7.46	7.30	7.48	22.03	22.17	29.25
अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक एवं अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	0.11	0.06	0.22	-0.85	0.42	0.71
कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	0.11	0.06	0.22	-0.85	0.42	0.71
कर उपरान्त अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	0.11	0.06	0.22	-0.85	0.42	0.71
अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त) से समाविष्ट]	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67
समता अथ पूर्वी आरक्षितियों (पूर्ववर्ती वर्ष के तुलना-पत्र में निदर्शितानुसार पुनर्मुख्यंकन आरक्षित छोड़कर) आय प्रति अथ (असाधारण मदों से पूर्व)	0.00	0.00	0.01	-0.03	0.01	0.02
(₹. 10/- प्रत्येक का) मूलभूत तथा तत्समीकृत आय प्रति अथ (असाधारण मदों के उपरान्त)	0.00	0.00	0.01	-0.03	0.01	0.02
(₹. 10/- प्रत्येक का) मूलभूत तथा तत्समीकृत : (₹. 10/- प्रत्येक का)	0.00	0.00	0.01	-0.03	0.01	0.02

टिप्पणियाँ :
 1. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा तथा संस्तुति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी तथा निदेशक मण्डल द्वारा 13 फरवरी 2025 को आयोजित अपनी बैठक में इन्हें अनुमोदन किया गया है।
 2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 (आईएनसी एएस) के अनुसार एवं, तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133, 133बी (एलओडीआर) अधिनियम 2015 के विनियम 33 तथा लागू होने योग्य सीमा तक अन्य प्रासंगिकता संबंधित पद्धतियों और नीतियों के अंतर्गत निर्धारितानुसार तैयार किया गया है।
 3. कंपनी ने 31.12.2024 को वरतमान तिमाही के दौरान निवेशकों की कोई विकसत प्राप्त नहीं की है।
 4. कंपनी की व्यवस्थापक निधि जो है वो एक एक प्राथमिक उद्यम के अंतर्गत आती है तथा यह कोई रिपोर्ट करनेयोग्य उद्यम नहीं है।
 5. तदनुकूल अवधि के औसतों को, जहाँ कहीं उनको तुलनायोग्य बनाने के लिए अनिवार्यतः उल्लेख है, वहाँ पुनर्निर्माण / पुनर्निर्माण / पुनर्निर्माण किया गया है।
 6. दिनांक 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के कंपनी के अलेखापरीक्षित परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.sfclindia.com) तथा एम्पएसईडी की वेबसाइट (www.mseil.in) पर उपलब्ध है।

हस्ता./ प्राधिकृत अधिकारी - मुद्रुट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
 दिनांक : 13/02/2025

मुजिवान स्मॉल फाइनेंस बैंक

द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग
 डी-7, सेक्टर 3, नोएडा (उ.प्र.) 201301

कच्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि, अधोस्थापना वित्तीय परिश्रमियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकृत होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार(रें)/व्यक्तियों (यों) से सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की गई थी।

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता के राशि के पुनर्भुगतान में अस्फल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोस्थापना वित्तीय परिश्रमियों के प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उक्त प्रदत्त शक्तियों के उपयोग यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समस्त-सीमा के परिप्रेष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रायधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्मति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्मति के साथ कोई संव्यवहार यहाँ नीचे प्रत्येक खाते के सम्मुख वर्णित राशियों तथा ध्यान एवं अन्य प्रायः/व्यवस्था के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन ही होगा।

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि कब्जा करने की तिथि	मांग सूचना की तिथि कब्जा करने की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि
1. मैसर्स सत्यम ट्रेडिंग, प्रो. कपिल अग्रवाल खैर रोड, इंदौर नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001, राशि ₹: 5/4- बी, अशोक नगर, सामने रिलायंस टावर, मुल्त रोड, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001, 2. कपिल अग्रवाल पुत्र सत्य प्रकाश अग्रवाल 5/4-बी, अशोक नगर, सामने रिलायंस टावर, मुल्त रोड, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001, 3. उमा अग्रवाल पत्नी कपिल अग्रवाल 5/4-बी, अशोक नगर, सामने रिलायंस टावर, मुल्त रोड, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001, ऋण खाता संख्या 22692100900000042, 22692188600000009 और 226921009000000014 में	आवासीय संपत्ति नगर निगम संख्या 5/4बी का समस्त भाग जिसका क्षेत्रफल 275.00 वर्ग मीटर है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: सीमाएँ: पूर्व: महेश चंद की संपत्ति, पश्चिम: लाजपतराय चण्डीय की संपत्ति, उत्तर: 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: श्रीमती शक्ति देवी और श्रीमती किरण देवी की संपत्ति। संपत्ति कपिल अग्रवाल पुत्र सत्य प्रकाश अग्रवाल यहाँ आप में से नंबर 2 की है। पिछला सांकेतिक कब्जा नोटिस संख्या UJJ/NOR/SAR/83/2023-24 दिनांक 09.05.2023 थापस लिया जाता है।	26.09.2024	11-02-2025	₹. 14,92,297/-
1. मैसर्स सोनू बूट हाउस प्रोप्राइटर गीता के माध्यम से, गीता धवन चौक, शांति वस्ती के सामने, सोनीपत, हरियाणा - 131001;	संपत्ति के पूरे हिस्से का प्लॉट माप 160 वर्ग मीटर है, 2. गीता धवन कुमार, 312/29, देव नगर, गली नंबर -06, सोनीपत, हरियाणा - 131001; 3. परवीन कुमार पुत्र राम किशन, 312/29, देव नगर, गली नंबर -06, सोनीपत, हरियाणा - 131001 ऋण खाता संख्या 22642100900000008 में	20-11-2024	10-02-2025	₹. 28,37,188/-
1. मोहम्मद शक्ति कुंरीश पुत्र मोहम्मद शकील उर्फ मोहम्मद शकील अहमद उर्फ शकील कुंरीश उर्फ शकील अहमद, मकान नंबर: 3144/बी, जाकिर हुसैन कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004, 2. इस्मैल अलावा मकान नंबर 415, शाही नगर, सेक्टर-11, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004; 3. रुखसाना पत्नी मोहम्मद शकील उर्फ मोहम्मद शकील अहमद उर्फ शकील कुंरीश उर्फ शकील अहमद, मकान नंबर: 3144/बी, जाकिर हुसैन कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004, इसके अलावा मकान नंबर 415, शाही नगर, सेक्टर-11, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004; 3. मोहम्मद शकील उर्फ मोहम्मद शकील अहमद उर्फ शकील कुंरीश उर्फ शकील अहमद पुत्र फखरुद्दीन उर्फ फखरुद्दीन कुंरीश, मकान नंबर: 3144/बी, जाकिर हुसैन कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004, मकान नंबर: 415/11, शाही नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004, ऋण खाता नंबर 22202101200000021	संपत्ति के पूरे हिस्से का प्लॉट माप 160 वर्ग मीटर है, 2. गीता धवन कुमार, 312/29, देव नगर, गली नंबर -06/15/2 मिनट (0-5) में शामिल, रकबा जमालपुर खुर्द, तहसील सोनीपत के भीतर बाका में रकबा देव नगर, सोनीपत, हरियाणा में स्थित है, जो इस प्रकार विभा है: सीमाएँ: पूर्व: महेश्वर प्रसाद का घर, पश्चिम: सुरेश देवी का घर उत्तर: सड़क दक्षिण: जोगेंद्र सिंह का घर। संपत्ति गीता धवन परवीन कुमार यहाँ आप में से नंबर 2 की है।	20-11-2024	10-02-2025	₹. 28,37,188/-
1. मोहम्मद शक्ति कुंरीश पुत्र मोहम्मद शकील उर्फ मोहम्मद शकील अहमद उर्फ शकील कुंरीश उर्फ शकील अहमद, मकान नंबर: 3144/बी, जाकिर हुसैन कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004, 2. इस्मैल अलावा मकान नंबर 415, शाही नगर, सेक्टर-11, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004; 3. रुखसाना पत्नी मोहम्मद शकील उर्फ मोहम्मद शकील अहमद उर्फ शकील कुंरीश उर्फ शकील अहमद, मकान नंबर: 3144/बी, जाकिर हुसैन कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004, इसके अलावा मकान नंबर 415, शाही नगर, सेक्टर-11, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004; 3. मोहम्मद शकील उर्फ मोहम्मद शकील अहमद उर्फ शकील कुंरीश उर्फ शकील अहमद पुत्र फखरुद्दीन उर्फ फखरुद्दीन कुंरीश, मकान नंबर: 3144/बी, जाकिर हुसैन कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004, मकान नंबर: 415/11, शाही नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004, ऋण खाता नंबर 22202101200000021	संपत्ति के पूरे हिस्से का प्लॉट माप 160 वर्ग मीटर है, 2. गीता धवन कुमार, 312/29, देव नगर, गली नंबर -06/15/2 मिनट (0-5) में शामिल, रकबा जमालपुर खुर्द, तहसील सोनीपत के भीतर बाका में रकबा देव नगर, सोनीपत, हरियाणा में स्थित है, जो इस प्रकार विभा है: सीमाएँ: पूर्व: महेश्वर प्रसाद का घर, पश्चिम: सुरेश देवी का घर उत्तर: सड़क दक्षिण: जोगेंद्र सिंह का घर। संपत्ति गीता धवन परवीन कुमार यहाँ आप में से नंबर 2 की है।	07-11-2024	10-02-2025	₹. 15,48,913/-

(1) मोहम्मद नसीम उर्फ मोहम्मद नसीम पुत्र मोहम्मद चशीर उर्फ मोहम्मद चशीर, 2693, गली काले खाँ, कृष्ण चालान, दरियागंज, मथुरा दिल्ली, दिल्ली - 110002; (2) समीर पत्नी मोहम्मद नसीम उर्फ मोहम्मद नसीम, 2693, गली काले खाँ, कृष्ण चालान, दरियागंज, मथुरा दिल्ली, दिल्ली - 110002; ऋण खाता संख्या 2240796000000001 एवं 22202100700000001 में

1. मैसर्स सोनू बूट हाउस प्रोप्राइटर गीता के माध्यम से, गीता धवन चौक, शांति वस्ती के सामने, सोनीपत, हरियाणा - 131001;

2. गीता धवन कुमार, 312/29, देव नगर, गली नंबर -06, सोनीपत, हरियाणा - 131001; 3. परवीन कुमार पुत्र राम किशन, 312/29, देव नगर, गली नंबर -06, सोनीपत, हरियाणा - 131001 ऋण खाता संख्या 22642100900000008 में

1. मोहम्मद शक्ति कुंरीश पुत्र मोहम्मद शकील उर्फ मोहम्मद शकील अहमद उर्फ शकील कुंरीश उर्फ शकील अहमद, मकान नंबर: 3144/बी, जाकिर हुसैन कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004, 2. इस्मैल अलावा मकान नंबर 415, शाही नगर, सेक्टर-11, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004; 3. रुखसाना पत्नी मोहम्मद शकील उर्फ मोहम्मद शकील अहमद उर्फ शकील कुंरीश उर्फ शकील अहमद, मकान नंबर: 3144/बी, जाकिर हुसैन कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004, इसके अलावा मकान नंबर 415, शाही नगर, सेक्टर-11, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004; 3. मोहम्मद शकील उर्फ मोहम्मद शकील अहमद उर्फ शकील कुंरीश उर्फ शकील अहमद पुत्र फखरुद्दीन उर्फ फखरुद्दीन कुंरीश, मकान नंबर: 3144/बी, जाकिर हुसैन कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004, मकान नंबर: 415/11, शाही नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250004, ऋण खाता नंबर 22202101200000021

(1) नईम खान पुत्र मोहम्मद पूरे खान, टावर वाली गली, मजहर की कोठी, रोहतास, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001; (2) मदीना उर्फ मदीना पत्नी नईम खान, टावर वाली गली, मजहर की कोठी, रोहतास, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001; ऋण खाता संख्या 22692100500000004 में

प्री-होल्ड संपत्ति के सभी हिस्से 50 वर्ग मीटर है। 41.80 वर्ग मीटर खेत खसरा नंबर: 161 (पुराना खाता नंबर: 00096 और वर्तमान खाता नंबर: 00110) का हिस्सा है और मौजा अलावापट्टा नियातरी, परमान और तहसील: कोइल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: सीमाएँ: पूर्व: सड़क, पश्चिम: इस्वीना का घर, उत्तर: गुलना का प्लॉट, दक्षिण: दिल्ली वाले का प्लॉट। संपत्ति नईम खान पुत्र मोहम्मद पूरे खान यहाँ आप में से नंबर 1 की है।

एमपीडीएल लिमिटेड

निगमित कार्यालय : यूटि नं. 12, जीएफ, मैग्जम टॉवर - 1, सेक्टर-58, गुरुग्राम- 122011
 पंजीकृत कार्यालय : 11/7, मयूरा रोड, सेक्टर-37, फरीदाबाद- 121003 (हरियाणा)
 दूरभाष सं. 0124-422234-35; ई-मेल : isc_mpdll@mpdl.co.in
 वेबसाइट : www.mpdll.co.in, सीआईएन: L70102HR2002PLC097001

31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित पृथक तथा समेकित वित्तीय परिणाम

लेखापरीक्षण समिति की संस्तुतियों के आधार पर एमपीडीएल लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मण्डल ने 13 फरवरी 2025 को आयोजित बैठक में 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित पृथक तथा समेकित वित्तीय परिणामों का अनुमोदन किया है, जो सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के निबंधनों के अंतर्गत कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक ओ पी बागला एवं कंपनी, एलएलपी, चार्टरित लेखाकार द्वारा एक सीमित समीक्षा किये जाने के अधीन है।

सांविधिक लेखापरीक्षक के सीमित समीक्षा प्रतिवेदनों के साथ उपयुक्त वर्णित वित्तीय परिणाम www.mpdll.co.in एवं www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं तथा इन्हें नीचे दिये गये एक विवक रिस्पॉन्स कोड को स्कैन करके भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है :



कंपनी की वेबसाइट पर परिणाम देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें



बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट पर परिणाम देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

कृते एमपीडीएल लिमिटेड
 हस्ता./-
 राजेश पालीवाल (अध्यक्ष)
 डीआईएन : 03098155

यदि यहाँ उपरोक्त प्रकटन पर कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे [पेब@mpdll.co.in](mailto:peb@mpdll.co.in) पर संपर्क करें।

अगसेन स्पिन्स लिमिटेड

CIN: L17297HR1995PLC034043
 पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, SCO 404, सेक्टर-20, पंचकुला
 ईमेल- agarsainspinners@gmail.com, दूरभाष- 0172-4644777,
 वेबसाइट- www.agarsainspinners.com

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (लाख ₹. में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन			
		3 माह समाप्ति 31.12.2024 अलेखापरीक्षित	अवधि समाप्ति 31.12.2024 अलेखापरीक्षित	वर्ष समाप्ति 31.03.2024 सेमापरीक्षित	3 माह समाप्ति 31.12.2023 अलेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	2,046.39	7,208.28	9,258.65	2,314.80
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर से पहले, अपवादिक और/वा असाधारण मदों के बाद)	9.29	42.45	53.60	18.53
3	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादिक और/वा असाधारण मदों के बाद)	9.29	42.45	53.60	18.53
4	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादिक और/वा असाधारण मदों के बाद)	6.93	29.16	39.50	13.36
5	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर से पहले और अन्य व्यापक आय शामिल है)	6.93	29.16	39.50	13.36
6	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर से पहले और अन्य व्यापक आय शामिल है)	350.34	350.34	350.34	350.34
7	रिजर्व (फिनिशेड वर्क की केस और वे रिहाय गत अनुसार पुनर्मुख्यंकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	477.07
8	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर से पहले और अन्य व्यापक आय शामिल है)	0.20	0.83	1.13	0.38
9	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर से पहले और अन्य व्यापक आय शामिल है)	0.20	0.83	1.13	0.38
10	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर से पहले और अन्य व्यापक आय शामिल है)	0.20	0.83	1.13	0.38
11	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर से पहले और अन्य व्यापक आय शामिल है)	0.20	0.83	1.13	0.38

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टैंडअलोन अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत विवरण का सारांश है। वित्तीय परिणामों का पूरा प्रकटन स्टैंडअलोन अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के वेबसाइट (www.mseil.in) और कंपनी की वेबसाइट (www.agarsainspinners.com) पर उपलब्ध है।
- उपरोक्त परिणामों की सेवा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 14-02-2025 को आवेगित उक्तों के तहत निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया है।
- वित्तीय परिणामों का पूरा प्रकटन सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टैंडअलोन अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के वेबसाइट (www.mseil.in) और कंपनी की वेबसाइट (www.agarsainspinners.com) पर उपलब्ध है।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी - अगसेन स्पिन्स लिमिटेड
 दिनांक: 14.02.2025

चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय : "चोला गेट", सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, विरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, तिन्डी, चेन्नई-600032, भारत
 शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पुला रोड, कन्नूर बाग, नई दिल्ली-110005
 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री श्रीनिवास जी., मोबाइल नंबर 9643344410

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/बंधककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल संपत्तियाँ, जिनका भौतिक कब्जा चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड इस्में आगे चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड कड़ी जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियाँ "जैसा है जहाँ है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहाँ है" आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी। एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई-नीलामी का संचालन वेबसाइट <https://chola-lap.procure247.com/> के माध्यम से करेंगे।

क्र. सं.	खाता संख्या कर्जदार, सह-कर्जदार, बंधककर्ता का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा एवं बोली बुद्धि राशि (₹. में)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ई-मपीडी जमा की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1.	ऋण खाता सं. X0HEDEF00002953320, X0HEDEF00003139298, तथा HE02DEF00000003483 1. सचिन कुमार (आवेदक) 2. सतेन्द्र पाल उर्फ सतेन्द्र पाल (सह-आवेदक) 3. गायत्री एस उर्फ गायत्री (सह-आवेदक) 4. सीमा एस उर्फ सीमा (सह-आवेदक) 5. मैसर्स सचिन पनीर भंडार (इसके स्वामी - सचिन कुमार द्वारा प्रतिनिधित्वकृत) (सह-आवेदक) ए-1/9, गली नंबर 1, उत्तम नगर, राजापुरी, दिल्ली-110059	13-07-2023 ₹. 37,16,873/-	सम्पत्ति नंबर ए-1/9, क्षेत्रफल परिमाण 50 वर्ग गज यानी 41.81 वर्ग मीटर, इसके सभी छत/टेरेस नीचे भूमि के अधिकारों सहित, कुल सम्पत्ति परिमाण 100 वर्ग गज, खसरा नंबर 104/1 का हिस्सा, ब्लॉक-ए-1, स्थित राजस्व सम्यदा ग्राम पालम, दिल्ली, आबादी क्षेत्र राजापुरी कालोनी के नाम से ज्ञात, ब्लॉक ए-1, उत्तम नगर, नई दिल्ली, जिसकी चौहददी निम्नानुसार है :- पूर्व- प्लॉट नंबर 8, पश्चिम - नंबर 9 का पोर्शन, उत्तर - रोड, दक्षिण - प्लॉट नंबर 9 (पोर्शन)।	₹. 49,50,000 /- ₹. 4,95,000 /- ₹. 20,000 /-	07-03-2025 पूर्व: 11.00 बजे से अपर 01.00 बजे तक 06-03-2025 पूर्व: 10.00 बजे से अपर 05.00 बजे तक मेट के निर्धारित समानुसार

1. आईओएन-नोटिसेज। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीम - 81240 00030), एमएस. प्रोक्योर247, (सम्पर्क व्यक्ति : वासु पटेल - 9510974587)

2. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया